

सीएसआईआर - भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान
CSIR - INDIAN INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY
[वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् / Council of Scientific & Industrial Research]
हैदराबाद / Hyderabad - 500 007

वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए अधिसूचना सं. 07/2023
NOTIFICATION NO. 07/2023 FOR WALK -IN-INTERVIEW

सीएसआईआर - आईआईसीटी विभिन्न प्रायोजित परियोजनाओं के तहत पूरी तरह से अस्थायी आधार पर निम्नलिखित पदों के लिए दिनांक: **15.05.2023, 16.05.2023 & 18.05.2023** को वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित कर रहा है।

CSIR - IICT is conducting Walk-in-Interview on **15.05.2023, 16.05.2023 & 18.05.2023** for the following positions under various sponsored projects purely on temporary basis.

जो उम्मीदवार आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि के निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं, वे वॉक-इन-इंटरव्यू में विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र (सीएसआईआर-आईआईसीटी वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करें) के साथ प्रमाणित प्रासंगिक दस्तावेज (मैट्रिक/10 वीं से सभी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्म तिथि, श्रेणी, आदि का प्रमाण पत्र) के साथ उपस्थित हो सकते हैं। सत्यापन के लिए उम्मीदवारों को सभी मूल प्रमाण पत्र लाने होंगे। उम्मीदवारों को वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए क्रम संख्या 1 से 16 तक दि. 15.05.2023 को और क्रम संख्या 17 से 25 तक दि. 16.05.2023 और क्रम संख्या 26 से 32 तक दि. 18.05.2023 को पूर्वाह्न 09.30 बजे से 10.30 बजे के बीच में अपना नाम पंजीकृत करना है।

Candidates who fulfill the under-mentioned criteria of age, educational qualifications, experience etc., may appear for walk-in-interview with the duly filled application form (download the application form from CSIR-IICT Website) along with one set of attested relevant documents (certificates of all educational qualifications from matric/10th onwards, Experience, DOB, latest Category/Caste Certificate etc) and appear for walk in interview. Candidates are required to bring all the original certificates for verification. **Candidates should register their names for walk-in-interview between 09.30 AM to 10.30 AM from Sl.Nos. 01 to 16 on 15.05.2023; from Sl.Nos. 17 to 25 on 16.05.2023 and Sl.Nos from 26 to 32 on 18.05.2023 respectively.**

Walk-in-Interview dated: 15.05.2023

क्र.सं. / Sl. No	प्रोजेक्ट का नाम/ Name of the Project	पद एवं वजीफा / परिलब्धियाँ Positions & Stipend/ Emoluments	पदों की सं. No of positions	क्षेत्र / विषय में अनिवार्य एवं वांछनीय योग्यता Essential & Desirable qualification in the area/discipline	वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि के अनुसार अधिकतम आयु सीमा Upper age limit as on date of walk in interview
1	AnalytiCSIR web portal software upgradation and redeployment	सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट / Senior Project Associate Rs. 42,000+HRA	01	अनिवार्य योग्यता /Essential Qualification: Bachelors degree in Engineering or Technology from a recognized University or equivalent with 4 years working experience in Govt or Pvt Organizations in the area of software web application development constituting Angular 6+ version, NodeJS, ExpressJS and MySQL database, should also have experience in deployment and maintenance of the same on public and/or private server platforms वांछनीय योग्यता /Desirable Qualification: work experience in web applications / research facilities data handling and web integration is highly desirable.	40
2	Development of silk M2 polymer and membrane fabrication	सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट / Senior Project Associate Rs. 42,000+27%HRA	01	Essential Qualification: Ph.D. in Chemical Engg. Desirable Qualification: 2 years experience in membrane technology & good publication record are preferable	40
3	Integrated solution to convert two GHGs CO2 and CH4 to H2 rich syngas	सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट / Senior Project Associate Rs. 42,000+HRA	01	Essential Qualification: Ph.D. in Chemical Sciences or Engg. Desirable Qualification: Experience in materials design using DFT	40
4	HDAC inhibitors against pulmonary fibrosis	सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट / Senior Project Associate ₹. 42,000+HRA	01	अनिवार्य योग्यता /Essential Qualifications: M.Pharm, Pharmacology with 2 years experience in cell culture/ animal models (or) M. Pharm, Pharmaceutics with 2 years experience in formulation development (nano/conventional formulations), characterization and evaluation वांछनीय योग्यता / Desirable Qualification: Experience in Animals models, efficacy, toxicity studies, cancer and inflammation models (or) knowledge or experience in pharmacokinetic studies, dose calculation, advanced drug delivery systems etc.	40

क्र.सं. / Sl. No	प्रोजेक्ट का नाम/ Name of the Project	पद एवं वजीफा / परिलब्धियाँ Positions & Stipend/ Emoluments	पदों की सं. No of position	क्षेत्र / विषय में अनिवार्य एवं वांछनीय योग्यता Essential & Desirable qualification in the area/discipline	वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि के अनुसार अधिकतम आयु सीमा Upper age limit as on date of walk in interview
5	Genomic surveillance for SARS-CoV-2 in India: Indian SARS-CoV-2 Genomics consortium (INSACOG)-Phase II	प्रोजेक्ट एसोसिएट - II/Project Associate-II Rs. 35,000+HRA	01	Essential Qualification MSc Microbiology with 2 years experience in COVID surveillance Desirable Qualification: Expertise in molecular techniques and waste water monitoring	35
6	In-house Project, CSIR-IICT	प्रोजेक्ट एसोसिएट - II/Project Associate-II Rs. 35,000+HRA to Scholars who are selected through (a) National Eligibility tests-CSIR-UGC-NET including lectureship (Assistant Professorship) or GATE or (b) A selection process through National level examination conducted by Central Government Departments and their agencies and institutions ii) and ₹. 28,000+HRA for others who don't qualify (i) above (Or) प्रोजेक्ट एसोसिएट - I/Project Associate-I Rs. 31,000+HRA to Scholars who are selected through (a) National Eligibility tests-CSIR-UGC-NET including lectureship (Assistant Professorship) or GATE or (b) A selection process through National level examination conducted by Central Government Departments and their agencies and institutions ii) and ₹. 25,000+HRA for others who don't qualify (i) above	01	अनिवार्य योग्यता /Essential Qualifications: Project Associate-I: Masters in Science Project Associate-II: Masters in Science with 2 yrs experience in science content writing, handling social media, technical skills in computer art work वांछनीय योग्यता /Desirable Qualification: Project Associate-I: Experience or Diploma in science content writing, handling social media, technical skills in computer art work	35
7	Process for cellulose derived reinfred thermoplastic starch blends for biodegradable caly application	प्रोजेक्ट एसोसिएट - II/Project Associate-II Rs. 28,000+HRA	01	Essential Qualification BE/BTech Chemical/Civil/Mech Engg with 2 years experience Desirable Qualification: MTech Chemical / Nano	35

क्र.सं. / Sl. No	प्रोजेक्ट का नाम/ Name of the Project	पद एवं वजीफा / परिलब्धियाँ Positions & Stipend/ Emoluments	पदों की सं. No of positions	क्षेत्र / विषय में अनिवार्य एवं वांछनीय योग्यता Essential & Desirable qualification in the area/discipline	वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि के अनुसार अधिकतम आयु सीमा Upper age limit as on date of walk in interview
8	Analytical analysis by Raman	प्रोजेक्ट एसोसिएट - II/ Project Associate-II ₹. 28,000+HRA	01	Essential Qualification MSc (Physics/Chemistry) with 2 years experience in research sample preparation & analysis for PxRD, FESEM	35
9	Environmentally benign catalytic process for the preparation of alkyl phenomes	प्रोजेक्ट एसोसिएट - I/ Project Associate-I ₹. 31,000+HRA to Scholars who are selected through (a) National Eligibility tests- CSIR-UGC-NET including lectureship (Assistant Professorship) or GATE or (b) A selection process through National level examination conducted by Central Government Departments and their agencies and institutions and ₹. 25,000+HRA for others who don't qualify above	01	Essential Qualification MSc Chemistry Desirable Qualification: MSc Physical / Inorganic Chemistry, Experience in Catalysis, NET qualified	35
10	Elucidating the role dengue pathogenesis using machine learning models and in vitro approach	प्रोजेक्ट एसोसिएट - I/Project Associate-I Rs. 31,000/- [consolidated]	01	Essential Qualification Post graduation in Computer Sciences/Master of Computer applications/B.Tech in Computer Science Desirable Qualification: M.Tech in Computer Science with string knowledge on Data analysis using machining learning and deep learning models, knowledge on genomic/proteomic or clinical data analysis using Machine Learning or Deep Learning Techniques	35
11	Import substitution scale-up benchmark of potential metal free organic dyes & copper electrolytes	प्रोजेक्ट एसोसिएट - I/Project Associate-I Rs. 25,000+HRA	01	Essential Qualification MSc in Organic Chemistry Desirable Qualification: 6 months R&D experience	35
12	Genomic surveillance for SARS-CoV-2 in India: Indian SARS-CoV-2 Genomics consortium (INSACOG)-Phase II	प्रोजेक्ट एसोसिएट - I/ Project Associate-I Rs. 25,000/- [consolidated]	01	Essential Qualification B.Tech Mechanical/Civil/Chemical Engg. Desirable Qualification: Minimum one year experience in Red field water sampling and analysis	35

क्र.सं. / Sl. No	प्रोजेक्ट का नाम/ Name of the Project	पद एवं बज्जीफा / परिलब्धियाँ Positions & Stipend/ Emoluments	पदों की सं. No of positions	क्षेत्र / विषय में अनिवार्य एवं वांछनीय योग्यता Essential & Desirable qualification in the area/discipline	बॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि के अनुसार अधिकतम आयु सीमा Upper age limit as on date of walk in interview
13	Integrated solution to convert two GHGs CO ₂ and CH ₄ to H ₂ rich syngas	तकनीकी सहायक/Technical Assistant Rs. 20,000+HRA	01	Essential Qualification Diploma in Chemical/ Mechanical/ Instrumentation / Computers Desirable Qualification: Experience in handling chemical process equipment	50
14	Innovative Processes & Technologies for crop protection chemicals (Agromission-2)	वैज्ञानिक प्रशासनिक सहायक / Scientific Administrative Assistant Rs. 18,000+HRA	01	अनिवार्य योग्यता /Essential Qualification Graduate in Science वांछनीय योग्यता /Desirable Qualification: Proficiency in computers / maintaining project records/ assisting in conducting meetings, ...etc.	50
15	Innovative Processes & Technologies for crop protection chemicals (Agromission-2)	वैज्ञानिक प्रशासनिक सहायक / Scientific Administrative Assistant Rs. 18,000+HRA	02	अनिवार्य योग्यता /Essential Qualification Graduate in Agricultural sciences वांछनीय योग्यता /Desirable Qualification: Hands on experience in maintaining insect laboratories	50
16	Innovative Processes & Technologies for crop protection chemicals (Agromission-2)	वैज्ञानिक प्रशासनिक सहायक / Scientific Administrative Assistant Rs. 18,000+HRA	01	अनिवार्य योग्यता /Essential Qualification Bachelor degree in (Microbiology/Genetics/Biotechnology) वांछनीय योग्यता /Desirable Qualification: Hands on experience in basic techniques in Microbiology	50

Walk-in-Interview dated: 16.05.2023

क्र.सं. / Sl. No	प्रोजेक्ट का नाम/ Name of the Project	पद एवं वजीफा / परिलब्धियाँ Positions & Stipend/ Emoluments	पदों की सं. No of positions	क्षेत्र / विषय में अनिवार्य एवं वांछनीय योग्यता Essential & Desirable qualification in the area/discipline	वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि के अनुसार अधिकतम आयु सीमा Upper age limit as on date of walk in interview
17	Innovative Processes & Technologies for crop protection chemicals (Agromission-2)	सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट / Senior Project Associate Rs. 42,000+HRA	02	अनिवार्य योग्यता /Essential Qualification Master's Degree in Organic Chemistry/Integrated Chemistry from a recognized University or equivalent; and 4 years' experience in Research & Development (R&D) in Industrial & Academic Institutions or Science & Technology (S&T) Organizations' & Scientific activities & services वांछनीय योग्यता /Desirable Qualification: Ph.D. in organic Chemistry with two years experience in industry projects	40
18	Innovative Processes & Technologies for crop protection chemicals (Agromission-2)	प्रोजेक्ट एसोसिएट - I/ Project Associate-I ₹. 31,000+HRA to Scholars who are selected through (a) National Eligibility tests- CSIR-UGC-NET including lectureship (Assistant Professorship) or GATE or (b) A selection process through National level examination conducted by Central Government Departments and their agencies and institutions and ₹. 25,000+HRA for others who don't qualify above	26	अनिवार्य योग्यता /Essential Qualification M.Sc (Chemistry) with specialization in Organic chemistry (or) M. Pharmacy with specialization in Medicinal Chemistry/ Pharmaceutical Chemistry) from a recognized University or equivalent वांछनीय योग्यता /Desirable Qualification: Research experience in Organic synthesis/ R&D and process development are preferable	35
19	Innovative Processes & Technologies for crop protection chemicals (Agromission-2)	प्रोजेक्ट एसोसिएट - I/ Project Associate-I Rs. 25,000+HRA	01	अनिवार्य योग्यता /Essential Qualification M.Sc. (Chemistry) with specialization in Analytical Chemistry (or) M. Pharmacy specialization in Pharmaceutical Analysis from a recognized University or equivalent वांछनीय योग्यता /Desirable Qualification: 1-2 years research experience in Analytical chemistry	35

क्र.सं. / Sl. No	प्रोजेक्ट का नाम/ Name of the Project	पद एवं वजीफा / परिलब्धियाँ Positions & Stipend/ Emoluments	पदों की सं. No of positions	क्षेत्र / विषय में अनिवार्य एवं वांछनीय योग्यता Essential & Desirable qualification in the area/discipline	वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि के अनुसार अधिकतम आयु सीमा Upper age limit as on date of walk in interview
20	Innovative Processes & Technologies for crop protection chemicals (Agromission-2)	प्रोजेक्ट एसोसिएट - I/Project Associate-I Rs. 25,000+HRA	02	अनिवार्य योग्यता /Essential Qualification M.Sc. (Chemistry) (or) M. Pharmacy specialization in Pharmaceutical Analysis from a recognized University or equivalent वांछनीय योग्यता /Desirable Qualification: Expertise in crystallization	35
21	Innovative Processes & Technologies for crop protection chemicals (Agromission-2)	प्रोजेक्ट एसोसिएट - I/Project Associate-I ₹. 31,000+HRA to Scholars who are selected through (a) National Eligibility tests- CSIR-UGC-NET including lectureship (Assistant Professorship) or GATE or (b) A selection process through National level examination conducted by Central Government Departments and their agencies and institutions ii) and ₹. 25,000+HRA for others who don't qualify (i) above	03	अनिवार्य योग्यता /Essential Qualification MSc in Agricultural Entomology, Entomology and Zoology वांछनीय योग्यता /Desirable Qualification: Working experience in the area of insect pest management, rearing and maintenance insect culture and bio-evaluation studies. Experience in Testing of molecules against the target insects and data collection for arriving at Ld 50 values and further interpolation of data and Handling Ms office, report preparation etc.	35
22	Innovative Processes & Technologies for crop protection chemicals (Agromission-2)	प्रोजेक्ट एसोसिएट - I/Project Associate-I Rs. 25,000+HRA	01	अनिवार्य योग्यता /Essential Qualification M. Pharmacy (Pharmacology) वांछनीय योग्यता /Desirable Qualification: Experience in Mammalian cell culture	35
23	Innovative Processes & Technologies for crop protection chemicals (Agromission-2)	प्रोजेक्ट एसोसिएट - I/Project Associate-I Rs. 25,000+HRA	02	अनिवार्य योग्यता /Essential Qualification MSc in Microbiology / M. Pharmacy from a recognized University or equivalent वांछनीय योग्यता /Desirable Qualification: One-year experience in Research & Development in Industrial & Academic Institutions or Science & Technology Organizations' & Scientific activities & services in the area of Microbiology	35

क्र.सं. / Sl. No	प्रोजेक्ट का नाम/ Name of the Project	पद एवं वजीफा / परिलब्धियाँ Positions & Stipend/ Emoluments	पदों की सं. No of positions	क्षेत्र / विषय में अनिवार्य एवं वांछनीय योग्यता Essential & Desirable qualification in the area/discipline	वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि के अनुसार अधिकतम आयु सीमा Upper age limit as on date of walk in interview
24	Innovative Processes & Technologies for crop protection chemicals (Agromission-2)	प्रोजेक्ट एसोसिएट - I/Project Associate-I Rs. 25,000+HRA	01	अनिवार्य योग्यता /Essential Qualification MSc in Biochemistry / Microbiology/ life sciences. वांछनीय योग्यता /Desirable Qualification: Should possess good knowledge / 1-2 experience in neurobiology and receptor binding assays.	35
25	a Process know-how for Fluxapyroxad b Process know-how for Trifloxystrobin	प्रोजेक्ट एसोसिएट - I/Project Associate-I Rs. 25,000/- [consolidated]	03	अनिवार्य योग्यता /Essential Qualification MSc Organic Chemistry वांछनीय योग्यता /Desirable Qualification: One year experience / Process development experience (two years)	35

Walk-in-Interview dated: 18.05.2023

क्र.सं. / Sl. No	प्रोजेक्ट का नाम/ Name of the Project	पद एवं वजीफा / परिलब्धियाँ Positions & Stipend/ Emoluments	पदों की सं. No of positions	क्षेत्र / विषय में अनिवार्य एवं वांछनीय योग्यता Essential & Desirable qualification in the area/discipline	वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि के अनुसार अधिकतम आयु सीमा Upper age limit as on date of walk in interview
26	Rechargeable Aluminum battery facility for low carbon technology deployment	सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट / Senior Project Associate Rs. 42,000+HRA	01	अनिवार्य योग्यता /Essential Qualification MSc Chemistry with 4 years batteries experience (or) ME/MTech with 2 years batteries experience (or) PhD in batteries	40
27	CSIR Aroma-Mission Phase-III: Catalyzing rural empowerment and entrepreneurship development through cultivation, processing, value addition and marketing of aromatic plants	सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट / Senior Project Associate Rs. 42,000/- [consolidated]	03	अनिवार्य योग्यता /Essential Qualification B.Tech Chem Engg with 4 years R&D experience (or) M.Tech Chem Engg. With 2 years R&D experience वांछनीय योग्यता /Desirable Qualification: Experience in value addition of waste to value added products	40

क्र.सं. / Sl. No	प्रोजेक्ट का नाम/ Name of the Project	पद एवं वजीफा / परिलब्धियाँ Positions & Stipend/ Emoluments	पदों की सं. No of positions	क्षेत्र / विषय में अनिवार्य एवं वांछनीय योग्यता Essential & Desirable qualification in the area/discipline	वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि के अनुसार अधिकतम आयु सीमा Upper age limit as on date of walk in interview
28	CSIR-Aroma Mission Phase-III	<p>प्रोजेक्ट एसोसिएट - I/Project Associate - I</p> <p>Rs. 31,000+HRA to Scholars who are selected through (a) National Eligibility tests- CSIR-UGC-NET including lectureship (Assistant Professorship) or GATE or (b) A selection process through National level examination conducted by Central Government Departments and their agencies and institutions</p> <p>ii) and ₹. 25,000+HRA for others who don't qualify (i) above</p>	01	<p>अनिवार्य योग्यता /Essential Qualification</p> <p>M.Pharm (Pharmaceutical Chemistry) / MSc Organic Chemistry</p> <p>वांछनीय योग्यता /Desirable Qualification:</p> <p>Experience in natural product isolation and semi-synthesis of NCEs</p>	35
29	CSIR-Aroma Mission Phase-III	<p>प्रोजेक्ट एसोसिएट - I/Project Associate - I</p> <p>Rs. 31,000+HRA to Scholars who are selected through (a) National Eligibility tests- CSIR-UGC-NET including lectureship (Assistant Professorship) or GATE or (b) A selection process through National level examination conducted by Central Government Departments and their agencies and institutions</p> <p>ii) and ₹. 25,000+HRA for others who don't qualify (i) above</p>	02	<p>अनिवार्य योग्यता /Essential Qualification</p> <p>MSc Organic Chemistry / M.Pharm Pharmaceutical Chemistry</p> <p>वांछनीय योग्यता /Desirable Qualification:</p> <p>Experience in the synthesis of heterocyclic compounds</p>	35
30	Continuous flow pilot scale high quality Sitagliptin intermediate production	<p>प्रोजेक्ट एसोसिएट - I/Project Associate - I</p> <p>Rs. 31,000+27%HRA to Scholars who are selected through (a) National Eligibility tests- CSIR-UGC-NET including lectureship (Assistant Professorship) or GATE or (b) A selection process through National level examination conducted by Central Government Departments and their agencies and institutions</p> <p>ii) and ₹. 25,000+HRA for others who don't qualify (i) above</p>	01	<p>अनिवार्य योग्यता /Essential Qualification</p> <p>MSc Chemistry</p> <p>वांछनीय योग्यता /Desirable Qualification:</p> <p>2 years Experience in Organic synthesis with NET/GATE</p>	35

क्र.सं. / Sl. No	प्रोजेक्ट का नाम/ Name of the Project	पद एवं वजीफा / परिलब्धियाँ Positions & Stipend/ Emoluments	पदों की सं. No of positions	क्षेत्र / विषय में अनिवार्य एवं वांछनीय योग्यता Essential & Desirable qualification in the area/discipline	वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि के अनुसार अधिकतम आयु सीमा Upper age limit as on date of walk in interview
31	Rechargeable Aluminum battery facility for low carbon technology deployment	प्रोजेक्ट एसोसिएट - I/Project Associate-I Rs. 25,000+HRA	01	अनिवार्य योग्यता /Essential Qualification MSc Chemistry वांछनीय योग्यता /Desirable Qualification: Knowledge in Electrochemistry	35
32	Si-coumarin derived single-component Organic Nanoparticles for the on-demand Spatiotemporal controlled delivery of anti-cancer drugs	प्रोजेक्ट एसोसिएट - I/Project Associate-I Rs. 25,000/- [consolidated]	01	अनिवार्य योग्यता /Essential Qualification MSc Chemistry / M. Pharmacy वांछनीय योग्यता /Desirable Qualification: Organic chemistry or Pharmacognosy	35

✚ अधिकतम आयु सीमा की गणना साक्षात्कार की तिथि के अनुसार की जाएगी।
Upper age limit shall be reckoned as on the date of interview.

✚ न्यूनतम निर्धारित योग्यता प्राप्त करने के बाद अनुभव की गणना की जाएगी।
Experience shall be counted after obtaining the minimum prescribed qualification.

✚ केवल आवश्यक क्षेत्र / विषय में आवश्यक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को ही आवेदन करना चाहिए, अन्य पात्र नहीं हैं। परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार पात्र नहीं हैं।
Candidates possessing essential qualification in the required area/discipline only should apply, others are not eligible. Result awaited candidates are not eligible.

नोट / NOTE :

- इस विषय पर भारत सरकार / सीएसआईआर के निर्देशों के अनुसार सांविधिक समूह (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए उपरोक्त आयु सीमा में छूट दी गई है।
The above age limits are relaxable for candidates of statutory groups (SC/ST/OBC) and PWD candidates as per Govt. of India/ CSIR instructions on the subject.
- जो उम्मीदवार पहले से ही सीएसआईआर-आईआईसीटी या सीएसआईआर की किसी अन्य प्रयोगशाला / संस्थान में किसी प्रोजेक्ट अस्सिस्टेंट / प्रोजेक्ट फेलो / जेआरएफ (संविदात्मक आर एंड डी परियोजनाओं में) / एसआरएफ (संविदात्मक आर एंड डी परियोजनाओं में) / रिसर्च एसोसिएट आदि के रूप में कुल 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए सेवा कर चुके हैं, वे इस नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं। जिन उम्मीदवारों ने 5 वर्ष से कम की अवधि के लिए सेवा दी है, उनका कार्यकाल 5 वर्ष पूरा होने तक की शेष अवधि तक होगा।
The candidates who have already served CSIR-IICT or any other lab/institute of CSIR as any Project Assistant / Project Fellow / JRF (in contract R&D projects) / SRF (in contract R&D projects) / Research Associate etc., for a total period of 5 years or more are not eligible for these engagements. The candidates who have served for a period less than 5 years will have tenure up to remaining period till completion of 5 years.
- उम्मीदवारों को केवल एक पद के लिए आवेदन करना होगा।
Candidates have to apply for only one position.
- सीएसआईआर-आईआईसीटी किसी भी चरण में किसी भी चयनित उम्मीदवार की उम्मीदवारी में किसी भी विसंगति मिलने पर अपने निर्णय को रद्द करने या वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
CSIR-IICT reserves the right to cancel or withdraw the award in case of any discrepancy found, in the candidature of any selected candidate at any stage.

5. चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा और कौशल परीक्षा यदि लागू हो तो उपयुक्त पदों के लिए आयोजित किया जाएगा।
The selection will be on the basis of interview & skill test if applicable will be conducted for suitable posts.
6. सीएसआईआर-आईआईसीटी किसी विशेष पद को न भरने का अधिकार सुरक्षित रखता है, अगर वह ऐसा चाहता है। ऊपर दी गई रिक्तियों की संख्या वास्तविक चयन के समय भिन्न हो सकती है।
CSIR-IICT reserves the right not to fill up a particular position, if it so desires. The number of vacancies indicated above may vary at the time of actual selection.
7. किसी विषय/कार्य क्षेत्र में अनुभव की अवधि, जहां भी विहित हो, की गणना उस पद के लिए न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने की तिथि के बाद की जाएगी।
The period of experience in a discipline / area of work, wherever prescribed, shall be counted after the date of acquiring the minimum prescribed educational qualifications for that position.
8. नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी आधार पर आरंभ में छह महीने की अवधि तक होगी, जिसे प्रायोजित परियोजना की अवधि / संतोषजनक प्रदर्शन या फेलो के आचरण, जैसा भी मामला हो, के आधार पर बढ़ाया या घटाया जा सकता है और वह सीएसआईआर-आईआईसीटी में किसी भी स्थायी पद का हकदार नहीं है।
The engagement will be purely on temporary basis initially for a period up to six months which may be extended or curtailed depending on the duration of the sponsored project / satisfactory performance or conduct of the fellow as the case may be and does not entitle him/her for any permanent position in CSIR/IICT.
9. साक्षात्कार के लिए कोई यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
No TA/DA will be paid for the interview.
10. कोई अंतरिम पृच्छताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा
No interim enquiry or correspondence will be entertained

स्थान / Place: / Hyderabad

दिनांक / Date: 04.05.2023

Sd/-

प्रशासनिक अधिकारी / Administrative Officer